



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 भाद्र 1932 (श०)
(सं० पटना 628) पटना, बृहस्पतिवार, 26 अगस्त 2010

सं० 2/सी० 3-30206/90-सा०प्र०-7239

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

28 जुलाई 2010

श्री अदालत सिंह, बिहार प्रशासनिक सेवा, कोटि क्रमांक 190/08 तत्कालीन अंचलाधिकारी नौवतपुर, पटना सम्प्रति उप-निदेशक कल्याण, पटना प्रमण्डल पटना के विरुद्ध अभिलेख संख्या 3/76-77 के तहत पूर्व में दी गयी अनुशंसा के विपरीत 05 (पाँच) डीसमील भूमि का लगान निर्धारण में अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित किया गया। प्रतिवेदित आरोपों पर आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण एवं संचिका में सुसंगत कागजातों के समीक्षोपरान्त आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने के कारण सरकार के आदेशानुसार विभागीय संकल्प संख्या 237, दिनांक 07 जनवरी 2010 द्वारा श्री सिंह को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया गया :-

(क) दो वेतन-वृद्धि की अंसचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ख) प्रोन्नति पर दो वर्षों के लिये रोक।

2. श्री सिंह द्वारा उपर्युक्त दण्ड के विरुद्ध दिनांक 15 मार्च 2010 को पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा न तो कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत किया गया और न ही कोई नया साक्ष्य ही उपलब्ध कराया गया है, जिसके आधार पर पुनर्विचार किया जा सके। श्री सिंह द्वारा उन्हीं तथ्यों को दुहराया गया है जो पूर्व में स्पष्टीकरण में प्रस्तुत किया गया।

3. श्री सिंह को चूँकि माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से दण्ड संसूचित की स्वीकृति दी गयी, फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005-32 (4) के आलोक में इनके पुनर्विलोकन अर्जी को मंत्रिपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। मंत्रिपरिषद् द्वारा श्री सिंह के अपीलवाद को अस्वीकृत कर दिया गया है।

अतएव मंत्रिपरिषद् के निर्णय के आलोक में श्री सिंह द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति संबंधित पदाधिकारी श्री अदालत सिंह, बि०प्र०से०, एवं अन्य को दी जाय।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,

सिद्धनाथ राम,

सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 628-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>